

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2014/माघ 11, 1935

No. 36]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2014/MAGHA 11, 1935

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2013

संख्या फा. 47-32/2013/राअशिप/समन्वय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खण्ड 20(3)(क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् द्वारा निम्न सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की क्षेत्रीय समितियों में नामित किया जाता है:—

i. उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर

श्रीमती सुरीना राजन,
आईएएस, प्रधान सचिव,
स्कूली शिक्षा विभाग,
हरियाणा सचिवालय,
चण्डीगढ़,
हरियाणा।

ii. दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलौर

प्रोफेसर पद्मा सारंगपाणि,
इन्स्टीट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकानामिक चेंज,
डा. वी.के.आर.वी. राव रोड,
नगरभावी, बंगलौर-560072,
कर्नाटका।

iii. पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल

श्री सी.एन.सुब्रमण्यम,
ऐकलव्य,
चक्कर रोड,
मालाखेड़ी, होशंगाबाद-461001,
मध्य प्रदेश।

- iv. **पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर**
 प्रोफेसर वर्जिनियस खाखा,
 टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस)
 14-ए, भुवान रोड़, उजान बाजार,
 गुवाहटी-781001,
 असम।

कार्यकाल

उपर्युक्त नामांकन तत्काल प्रभाव से मौजूदा क्षेत्रीय समितियों की अवधि तक अथवा जब तक नई नियुक्तियां की जाती हैं, इनमें से जो भी बाद में हो, तक होंगे।

देय भत्ते

क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों को टीए/डीए तथा सिटिंग फीस का भुगतान परिषद् के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

आर. जया, सदस्य सचिव

[विज्ञा. III/4/असा./131-ए/13]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2013

No. F. 47-32/2013/NCTE/CDN.—In exercise of the powers conferred under Section 20(3) (a) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the following members are nominated by the Council to the Regional Committees of the National Council for Teacher Education, New Delhi.

i. Northern Regional Committee, Jaipur

Mrs. Surina Rajan,
 IAS, Principal Secretary,
 Deptt. of School Education,
 Haryana Sachivalaya,
 Chandigarh,
 Haryana.

ii Southern Regional Committee, Bangalore

Prof. Padma Sarangpani,
 Institute for Social and Economic Change,
 Dr. V.K.R.V. Rao Road,
 Nagarabhavi, Bangalore – 560072,
 Karnataka.

iii Western Regional Committee, Bhopal

Shri C.N. Subramaniam,
 Eklavaya,
 Chakker Road,
 Malakhedi,
 Hosangabad – 461001,
 Madhya Pradesh.

iv Eastern Regional Committee, Bhubaneswar

Prof. Virginius Xaxa,
 Tata Institute of Social Science (TISS),
 14-A, Bhuban Road,
 Uzanbazar,
 Guwahati – 781001,
 Assam.

TERM OF OFFICE

The above nominations shall be for a period of present Regional Committees with immediate effect or till such time as fresh appointments are made, whichever is later.

ALLOWANCES PAYABLE

TA/DA and sitting fees shall be paid to the Members of the Regional Committees as per Council's Rules.

R. JAYA, Member Secy.

[ADVT. III/4/Exty./131-A/13]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2013

संख्या फा. 47-31/2013/राअशिप/सीडीएन:-दिनांक 23 सितम्बर, 2011 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 187 के माध्यम से प्रोफेसर एम.ए. खादर को दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलौर का सदस्य नामित किया गया था। समिति में नामांकन के बाद उन्होंने दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलौर की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया और उन्होंने 15 मई 2013 को समिति से त्यागपत्र दे दिया। परिषद् द्वारा 29 जुलाई, 2013 को हुई बैठक में त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

आर. जया, सदस्य सचिव

[विज्ञा. III/4/असा./131-ए/13]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2013

No. F.47-31/2013/NCTE/CDN.—Prof. M.A. Khader was nominated as Member, Southern Regional Committee, Bengaluru vide Gazette Notification No. 187, dated 23rd September, 2011. After his nomination in the Committee, he has not attended any meeting of Southern Regional Committee, Bangalore and has resigned from the Committee on 15th May, 2013. The resignation has been accepted by the Council in its meeting held on 29th July, 2013.

R. JAYA, Member Secy.

[ADVT. III/4/Exty./131-A/13]